

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल- बक्सर

पत्रांक- 125 / बक्सर

दिनांक- 28/01/2023

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल- बक्सर

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (BRRDA)
बुद्ध मार्ग, पटना।

विषय- शीर्ष 3054 (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति- 2018) योजना अंतर्गत राशि की अधियाचना के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि योजना शीर्ष 3054 मरम्मत (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति- 2018) अंतर्गत कराये गए कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता है जिसे अधियाचना प्रपत्र के साथ सलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि सलग्न विवरणी के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि संवेदकों द्वारा कराये गए कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनु०- यथोक्त

विश्वासभाजन

28-01-23

कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल- बक्सर

AK
28/01/23

FORM GFR 19-A
(SEE Government of India's Decision (I) below Rule-150)
Form of Utilisation Certificate upto the month of Dec 2018

MR (3054) New Maintenance Policy 2018

PIU - RWD (W), Div.- Buxar

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MR (3054) Maintenance	Lt. No.- 05, dt.-25.01.2022	6332.34783	Certified that out of Rs. 6332.34783 lacs received during the years in favour of Ex. Engineer, RWD (W), Div.- Buxar Bihar, a sum of Rs 6243.84167 lacs has been utilized for the purpose of MR (3054) New Maintenance Policy 2018 Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 88.50616 lacs remaining unutilized at the end of the period under.
Total -				

- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Supertending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Supertending Engineer.
- Construction materials have been tested
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 **Physical Progress achieved :-**

- Construction of Road works
- Construction of CD works

28.01.23
Executive Engineer

R.W.D. (w) Div. Buxar

AK
28/01/23

Station Format for Scheme Head- MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy- 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Sl No	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date Of Completion as per Agreement (In mm/km)	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (In Lakh)	up-to- date expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (In KM)	Amount (In Lakh)	Initial Rectification With Surface Renewal (In Lakh)	5 Years Routine Maintenance (In Lakh)									
1	RM/BU/BU X/22/0005	Bharwala - Baruna	10401902065	Lt. No- 2005, Dt- 05/05/2022	1.270	74.61	66.68896	11.23410	08/MBD/2022-23 & 29/08/2020	14.08.2023	2587	25 mm	5.01%	0.00000	0.00000	66.62853	

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed
2. Up-to- date Physical Progress has been uploaded in MIS

Executive Engineer
RWD (W), Div- Buxar

AK
25/01/23

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर

का0आ0स..... बक्सर/ दिनांक.....


कार्यालय आदेश

प्रमाणित किया जाता है कि बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीती-2018 योजनान्तर्गत **Bhatwaila to Baruna** पथ का कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराया गया है। पथ के मापीपुस्त की जाँच मेरे द्वारा 10 प्रतिशत एवं कनीय अभियंता के द्वारा शत प्रतिशत किया गया है।

मे.स.
28/1/25
J.E.

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रशाखा बक्सर

30.01.23
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बक्सर



28/1/25
JE.

28.01.23
66

ROAD NAME:- BHATWALIA TO BARUNA CONTRACTOR NAME:- SHAILESH SINGH

Date	Time	Section	No.	Length	Bumps	Speed	OR	IRI CATEGORY	Latitude	ongitude	Event
28/1/23	10: 6: 0	43	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD	25.5622	84.6677	Normal
28/1/23	10: 7: 0	43	0.1	340	10.1	2880	2625 G		25.56213	84.67727	Normal
28/1/23	10: 7: 33	43	0.1	310	10.1	2500	2356 G		25.56296	84.6813	Speed Breaker
28/1/23	10: 8: 44	43	0.1	330	10.1	3300	2278 G		25.56278	84.69057	Normal
28/1/23	10: 9: 19	43	0.1	340	10.1	2800	2456 G		25.56261	84.7007	Normal
28/1/23	10: 9: 54	43	0.1	350	10.1	2500	2326 G		25.56244	84.70992	Normal
28/1/23	10: 10: 30	43	0.1	340	10.1	2800	2436 G		25.56275	84.71868	Normal
28/1/23	10: 11: 5	43	0.1	350	10.1	2700	2246 G		25.56265	84.72878	Normal
28/1/23	10: 11: 5	43	0.1	300	10.1	2215	2245 G		25.56241	84.73803	Normal
28/1/23	10: 11: 5	43	0.1	230	10.1	2300	2125 G		25.56208	84.74848	Normal
28/1/23	10: 11: 40	43	0.1	220	10.1	2200	2044 G		25.56172	84.75773	Normal
28/1/23	10: 12: 0	43	0.1	220	10.1	2200	2044 G		25.56154	84.7677	Normal
28/1/23	10: 12: 0	43	0.1	230	10.1	2300	2125 G		25.56146	84.77508	Normal
28/1/23	10: 12: 14	43	0.07	100	10.1	1667	1609 G				

LENGTH= 1.27

28/1/23
JE.

28.01.23
EE

X = 1667
Y = 1609
(R) RURAL ROAD
Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001
IRI VALUE=2587
MACHINE ID=415